



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2019/आषाढ़ 28, 1941
No. 415]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2019/ASHADHA 28, 1941

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 515(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत मौसम विज्ञान विभाग) में प्रशासनिक कैडर, समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' भर्ती नियम 2006 का अधिकांश करते हुए जहाँ तक अधीक्षक और प्रशासनिक सहायक के पदों से संबंधित रहे हैं जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग में सहायक के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ तारीख.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, (सहायक) भर्ती नियम 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयुसीमा और अर्हताएँ.—उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक	152* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रु.)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार के अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु-सीमा में पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा की अंतिम तारीख का निर्धारण	आवश्यक:- (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री और (ख) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विहित कंप्यूटर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण। टिप्पण:- अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष टिप्पण: परिवीक्षा के अध्यक्षीन भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रकल्पित रूप में आवश्यक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करना होगा।

कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन के अनुसार रहेगा।	में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		
--	---	--	--

भर्ती की पद्धति: सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है
(10)	(11)	(12)	(13)
25% सीधी भर्ती के द्वारा; 60% प्रोन्नति के द्वारा, ऐसा नहीं होने पर अल्प-अवधि संविदा सहित प्रतिनियुक्ति के द्वारा; और 15% सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा।	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500- 81,100/-रु.) में कार्यरत उच्च श्रेणी लिपिक जिनकी इस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो चुकी है। टिप्पण : 1. प्रोन्नति के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। टिप्पण : 2. जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी 1. वैज्ञानिक 'एफ' अथवा वैज्ञानिक 'जी' : —अध्यक्ष 2. उपमहानिदेशक (प्रशासन) —सदस्य, और 3. एक विभागीय राजपत्रित अधिकारी (भारत मौसम विज्ञान विभाग) —सदस्य समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) 1. वैज्ञानिक 'एफ' अथवा वैज्ञानिक 'जी' —अध्यक्ष 2. उपमहानिदेशक (प्रशासन) —सदस्य, और 3. एक विभागीय राजपत्रित अधिकारी (भारत मौसम विज्ञान विभाग) —सदस्य	लागू नहीं होता।

	<p>कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित):</p> <p>केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों/कानूनी अथवा स्वायत्त निकायों के अधिकारी, जो</p> <p>(क)(I) मूल कैडर या विभाग में सदृश पद पर नियमित रूप से धारण कर रहे हैं; या</p> <p>(II) जिसने वेतन मैट्रिक्स (29,200- 92,300 ₹.) के स्तर-5 या समतुल्य में भर्ती के बाद से छह वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है; अथवा</p> <p>(iii) जिसने वेतन मैट्रिक्स (25,500- 81,100 ₹.) के स्तर-4 या समतुल्य में भर्ती के बाद से दस वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं:</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री।</p> <p>(ii) वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, स्लाइड तैयार करना आदि के कंप्यूटर ज्ञान में दक्षता, जिसका सत्यापन इस कैडर के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।</p> <p>(iii) स्थापना अथवा प्रशासन अथवा लेखा संबंधी कार्यों में दो वर्ष का अनुभव।</p>		
--	--	--	--

	<p>टिप्पण - 1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण- 2. केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में अन्य बाह्य कैडर के समान पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (लघु-अवधि संविदा सहित) इस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा:</p> <p>भारत मौसम विज्ञान विभाग के निम्नलिखित प्रवर्गों के कार्मिक भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की डिग्री होगी।</p> <p>(i) कोई भी कार्मिक जो उच्च श्रेणी लिपिक अथवा मेकैनिक श्रेणी-। (औद्योगिकी और गैर औद्योगिकी) अथवा मौसम विज्ञान प्रेक्षक-॥ अथवा इलेक्ट्रीशियन अथवा स्टॉफ कार ड्राइवर ग्रेड-॥ अथवा रेडियो मेकैनिक अथवा आशुलिपिक ग्रेड-॥ अथवा विभाग का कोई भी कार्मिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स</p>		
--	---	--	--

	<p>(25,500- 81,100 रु.) के स्तर- 4 में छह वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो; अथवा</p> <p>(ii) कोई अन्य कार्मिक जो मेकैनिकल सहायक अथवा मौसम विज्ञान प्रेक्षक-। अथवा मेकैनिकल सहायक (औद्योगिकी) अथवा मेकैनिकल सहायक (कार्पेंटर-औद्योगिकी) अथवा स्टॉफ कार ड्राइवर ग्रेड-। अथवा वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) के स्तर- 5 का कोई भी अन्य कार्मिक जिन्होंने इन पदों पर नियुक्ति के बाद से चार वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण:- प्रोन्नति के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अभिकल्पित प्रशिक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है।</p>		
--	--	--	--

[फा. सं. ए-12027/1/10-ई(3)(आर आर)]

गजेंद्र कुमार, उपमहानिदेशक (स्थापना)

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(India Meteorological Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2019

G.S.R. 515(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Science and Technology (India Meteorological Department), Administrative Cadres, Group-‘B’ (Non-Gazetted) and Group ‘C’ Post, Recruitment Rules, 2006, in so far as they relate to the posts of Superintendent and Administrative Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Assistant in the Ministry of Earth Sciences, India Meteorological Department, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Earth Sciences, India Meteorological Department (Assistant) Recruitment Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and the level in the pay matrix.**—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of Recruitment, age-limit and qualifications etc..**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating there to, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualifications.**— No person,—
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said posts :
- Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant.	152* *(2019) Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group B, Non-Gazetted Ministerial.	Level -6 (Rs. 35,400 – 1,12,400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding Thirty years. (Relaxable for Government servants up to 5 years' in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). Note. —The Crucial date for determining the age-limit shall be advertised by Staff Selection Commission.	Essential : ----- (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute; and (b) Passed Computer Proficiency Test as prescribed by the Staff Selection Commission. Note. - Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be	Not applicable	Two years for direct recruits and promotees. Note. - The probation shall be subject to successful completion of mandatory training as devised by India Meteorological Department.

	recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.		
--	--	--	--

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
25% by direct recruitment; 60% by promotion failing which by deputation, including short-term contract; and 15% by Limited Departmental Competitive Examination.	<p>Promotion :</p> <p>The departmental Upper Division Clerk in level-4 (Rs. 25,500-81,100) in the pay matrix with ten years' regular service rendered in the grade.</p> <p>Note 1.- Successful completion of mandatory training for promotion, as devised by India Meteorological Department.</p> <p>Note 2.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract) :</p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or statutory or autonomous bodies :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1) Scientist 'F' or Scientist 'G'- Chairman;</p> <p>2) Deputy Director General (Administration)— Member; and</p> <p>(3) One Gazetted Officer from Department (India Meteorological Department) —Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Scientist 'F' or Scientist 'G'- Chairman;</p> <p>(2) Deputy Director General (Administration) —Member; and</p> <p>(3) One Gazetted Officer from Department (India Meteorological Department) —Member.</p>	Not applicable.

	<p>(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5 (Rs. 29,200 - 92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-4 (Rs. 25,500- 81,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience :</p> <p>(i) bachelor's Degree from a recognised University or Institute.</p> <p>(ii) computer proficiency in word-processing, spreadsheet, slide generation, etc. to be certified by cadre controlling authority; and</p> <p>(iii) two years' experience in establishment or administration or accounts matters.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- Period of Deputation (including short-term contract) including period of Deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The Maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six</p>		
--	--	--	--

	<p>years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Limited Departmental Competitive Examination :</p> <p>The following categories of employees possessing Bachelor's Degree from a recognised University or Institute of the India Meteorological Department shall be eligible for appearing in the Limited Departmental Competitive Examination, to be conducted by India Meteorological Department:</p> <p>(i) any employee holding the post of Upper Division Clerk or Mechanic Grade -I (Industrial and Non-Industrial) or Meteorological Observer-II or Electrician or Staff Car Driver Grade-II or Radio Mechanic or Steno II or any other post of the Department in level -4 (Rs. 25,500-81,100) in the pay matrix with six years' regular service in the grade rendered after appointment there to; or</p> <p>(ii) any other employee holding the post of Mechanical Assistant or Meteorological Observer-I or Mechanical Assistant (Industrial) or Mechanical Assistant (Carpenter- Industrial) or Staff Car Driver Grade- I or any other post in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix with four years' regular service in the grade rendered after appointment there to.</p> <p>Note.- Successful completion of mandatory training for promotion, as devised by the India Meteorological Department.</p>		
--	---	--	--

[F. No. A-12027/1/10-E(3)(RR)]

GAJENDRA KUMAR, Dy. Director General (Admn.)